

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2015—माघ 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2015

फा. क्र. 17(ई)-261-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), जबलपुर, इन्दौर, होशंगाबाद, मंदसौर, हरदा, भिण्ड एवं विदिशा मध्यप्रदेश हेतु त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2014-15 हेतु निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को नगरीय निकायों निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.)

जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. 2318-स्थानीय निर्वाचन-Sector Off.-2014.—त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-42-05-2014-तीन 1707, भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2014 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन जोनल (सेक्टर आफिसर) निम्नानुसार कालम नम्बर 05 में आवंटित पंचायतों हेतु सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया जाता है:—

जनपद पंचायत, राजगढ़

स. क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम	पद नाम	मोबा. नं.	सेक्टर के अन्तर्गत आने वाले पंचायत का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सैयद मोहम्मद अली	पशु चिकित्सा सहायक शाल्यज्ञ, राजगढ़.	9425097835	बलबहादुरपुर छायन पिपलोदी देहरीनाथ हिनेती	1, 2 3, 4 5, 6, 7 8, 9 10, 11, 12	12	
2	डी. आर. जाटव	उप संचालक	9926636838	माचलपुर कंवरपुरा कासी झंझाडपुर मोतीपुरा	69, 70, 71, 72 73, 74, 75 76, 77 78, 79, 80 81, 82	14	
3	श्री देवेन्द्र सिंह गोड़	उपयंत्री, पीएचई, राजगढ़.	9981774325	बामलाबे अभयपुर मोहनपुरा माडाखेडा पडिया	176, 177 119, 120 174, 175 172, 173 112, 113	10	
4	मुकेश सिंह	वि.व.विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, राजगढ़.	9926755978	पीपलबे खरना बानपुर सुल्तानपुरा पीपल्या	104, 105 110, 111 116, 117, 118 114, 115 106, 107, 108, 109	13	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	राधेश्याम मालवीय	प्राचार्य, कन्या हा. से. स्कूल, राजगढ़.	9617014796	पाटनकला रामगढ़ नेसडी सरेडी	124, 125, 126 121, 122, 123 127, 128 92, 93	10	
6	मधुरेश कुमार सराफ	सहायक यंत्री, EEWRD राजगढ़.	9425445555	देवझिरी फूलखेड़ी बंगा पाइलीखाती गोलाखेड़ा	89, 90, 91 94, 95 83, 84 85, 86 87, 88	11	
7	कैलाशचन्द्र चौधरी	सहायक यंत्री, EEWRD राजगढ़.	9425758636	हताईखेड़ा बरखेड़ा कुण्डीबे राजपुरा कोलूखेड़ी खेरासी	99, 100 96, 97, 98 129, 130 131, 132 137, 138 139, 140	13	
8	एन. व्ही. संतोष कुमार	प्रशिक्षण अधिकारी ITI ब्यावरा	9827839073	करेड़ी गोरखपुरा खजूरी तुमडियाखेड़ी	133, 134, 135, 136 147, 148, 149 150, 151 141, 142,	11	
9	ओ. पी. गुप्ता	कार्यपालन यंत्री, EEWRD राजगढ़.	9425365122	मुरारिया कोलूखेड़ा बाईहेड़ा नरी कालीतलाई	162, 163 168, 169 170, 171 154, 155 156, 157, 158, 159	12	
10	श्रीमती किरण सोनालकर	निर्देशिका महिला बाल विकास राजगढ़.	9755054148	चाटूखेड़ा रोज्या रामपुरिया लाख्या घोड़ाखेड़ा लसूइलीधाकड़	164, 165, 166, 167 160, 161 145, 146 200, 201, 202 143, 144 198, 199	15	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	विनोद बाघ	उप संचालक, पंचायत राजगढ़	9425077218	भियापुरा धनवासकला लहरची	13, 14, 15, 16, 17, 18 64, 65, 66, 67, 68 56, 57	13	
12	बिमान सिंह पटेल	सहायक संचालक, DEO राजगढ़	8349003066	कालीपीठ हिरनखेड़ा टाण्डीकलां बनानिया सुवांसड़ा सुआहेड़ी कलीखेड़ा	58, 59 62, 63 60, 61 54, 55 30, 31 32, 33 101, 102, 103	15	
13	श्री राजेन्द्र कुमार झा	उपयंत्री, आईईएस, राजगढ़	9926359032	बाकपुरा किला अमरगढ़ बावड़ीपुरा प्रेमपुरा	24, 25, 26 19, 20, 21 22, 23 27, 28, 29	11	
14	दिनेश कुमार चन्द	प्राध्यापक Degree College, Rajgarh.	9425442838	महाबल देवलीकला खेड़ी आम्बा साण्डाहेड़ी कीलखेड़ा	50, 51 48, 49 46, 47 52, 53 40, 41	10	
15	बंगाली बाबू	व्याख्याता Govt. HSS खुजनेर.	9584481938	सिन्दुरिया आम्बा नारायणघटा जलालपुरा कौचरी	38, 39 44, 45 42, 43 34, 35 36, 37	10	
16	बिहारी लाल सूर्यवंशी	प्राचार्य, BEO राजगढ़	9425444683	करनवास सीलापानी समेली नाईखेड़ा	181, 182, 183, 184 185, 186 179, 180 189, 190	10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	लक्ष्मी विश्वकर्मा	सहायक यंत्री, EEWRD राजगढ़.	9713768145	बादलखेड़ी ओड़पुर देहरीबामन सनखेड़ी पदमपुरा	249, 250 191, 192 247, 248 187, 188 251, 252, 253	11	
18	रमेश कुमार अहिरवार	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी खादी ग्रामोद्योग, राजगढ़.	9977240971	चौतरा सुस्तानी कचनारिया गोरियाखेड़ा बड़लावदा	239, 240 241, 242, 243 244, 245, 246 232, 233, 234, 235 226, 227, 228	15	
19	बद्री प्रसाद दोगने	सहायक संचालक, ग्राम निवेश विभाग, राजगढ़.	9425672706	दूनी देहरीकराड़ बाँसखेड़ा पीपलाखेड़ा कोड़ियाजरागर	222, 223 195, 196, 197 193, 194 236, 237, 238 224, 225	12	
20	वी. एस. राठौर	व्याख्याता DPC राजगढ़.	7697517676	कलपोनी बखेड़ पाड़ल्याखेड़ी चौसला	210, 211, 212, 213 214, 215 216, 217, 218 208, 209 152, 153	13	
21	के. के. सोनी	Sr. DAO EEWRD राजगढ़.	9425791481	चौड़ापुरा लिम्बोदा फुन्दिया खईपका	219, 220, 221 203, 204, 205 229, 230, 231 206, 207	11	
22	वंदना फिलिप्स	उपसंचालक, सहायक प्रबंधक रेशम केन्द्र, राजगढ़.	9425444285	रिजर्व			
23	श्रीमती सवित्री राठौर	परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास, राजगढ़.	9424485004				

राजगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. 2318-स्थानीय निर्वाचन-Sector Off.-2014.-त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-42-05-2014-तीन-1707, भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2014 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन जोनल (सेक्टर आफिसर) निम्नानुसार कालम नम्बर 05 में आवंटित पंचायतों हेतु सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया जाता है:-

जनपद पंचायत, ब्यावरा

स. क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम	पद नाम	मो.बा. नं.	सेक्टर के अन्तर्गत आने वाले पंचायत का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	महावीर प्रसाद शर्मा	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ राजगढ़.	9425038556	1, 2 चाठा, 3, 4 खानपुरा, 5 अरन्था, 12, 13 मोया, 14 चमारी, 192 नारियावे, 193, 194 मोई, 186 कासोरकला, 187, ढोबड़ा, 195, 196 आलमपुरा, 188, 189 भाटपुणसौधिया.		17	
2	के. पी. सक्सेना	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ राजगढ़.	9893125228	6, 7 पीपलबे, 8 चन्द्रपुरा, 9 बीन्याखेडी, 10, 11 कटारियाखेडी, 26, 27 खुरी, 28 मोहनीपुरा, 29 इन्द्रा कालोनी, 244, 245 जामोन्थाषट, 30 माल्याहेडी, 31 भडक्या, 32, 33, 34 पडोनीया.		17	
3	श्री त्रिनेत्र सिंह देवड़ा	बीईओ, नरसिंहगढ़	9425622654	42, 43, 44 कचनारिया, 46, 46, 47 पीपलहेला, 48, 49, 50 खजूरिया, 56 बालीचिडी, 57 सुन्दरहेडा, 58, 59 मोचाखेडी.		13	
4	ईश्वरचंद खरे	प्राचार्य, ETI ब्यावरा	9584599796	51, 52, परसूलिया, 53, 54, शाहपुरा, 55 बरग्या, 60, 61 जरकडियाखेडी 62, 63 रलायती, 209, 210 पनाली.		11	
5	आर. के. मीणा	प्राचार्य, DEO राजगढ़	9425442629	64, 65, 66 भीलवाडीया, 73, 74 पुनरखेडी, 75 देवलखेडा, 76 नापल्याखेडी, 67, 68 भाटखेडी, 69 गूजरीबे, 70, 71 दूलतारिया, 72 दामडिया.		13	
6	परसुराम पाण्डेय	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी Dy. Dir. Hort., राजगढ़.	9893634688	35, 36 बहादुरपुरा, 37 भूरा, 38, 39 लसूडालिगुर्जर, 40 बरखेडी, 41 नालबन्दी, 89, 90 बाईहेडी, 91, 92 बागोरी, 93, 94 अतरालिया, 114, 115 भगवतीपुर, 248 बोरदा, 249 भीलखेडी, 250 देबखेडी.		18	
7	सुनील कुमार गुप्ता	व्याख्याता, कन्या हा. से. स्कूल, ब्यावरा.	9993698256	17, 18 बलोदीपुरा, 19,20 झरखेडा, 21 कोडियाखेडी, 22, 23 ढकोरा, 24, 25 हबीपुरा, 95, 96 गिन्दोरमीना, 46, 47 खाखरतोजा.		13	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	राजेन्द्र कुमार दुबे	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ब्यावरा.	9406967519	77 तालोडी, 78 धूरला, 79 पगारा, 80 पगारी, 31 नलखेड़ा, 82, 83 लसूडली महाराजा, 84, 85 मुवाल्यादांगी, 86, 87, 88 बारवां, 116, 117 अरन्या, 120, 121, 122 आमल्याहाट, 251 बरखेड़ी, 252 बमूल्या.	19	
9	ए. एल. मंडलोई	शाखा प्रबंधक, एम.पी. एग्री, ब्यावरा.	9425355910	118, 119 मोतीपुरा, 123, 124, 125, 126 आगर, 127 चूकल्या, 128 सागपुर, 129, 130 सुन्दरपुरा, 131, 132 कुण्डीखेड़ा.	12	
10	नरेन्द्र कुमार वर्मा	सहायक श्रम पदाधिकारी राजगढ़.	9406588662	97 तलावडामहाराजा, 98 पाडलीमहाराजा, 106, 107 जामी, 108, 109 जामोन्धा, 110, 111, 112 मलावर, 113 खेडीकुशलपुरा, 160, 161 सलेहपुर, 162 शमशेरपुरा.	13	
11	एस. सी. जैन	सहा. परि. प्रबंधक EERES, राजगढ़.	9893116360	15, 16 बरखेड़ा, 179, 180 निवानिया, 184, 185 जेपला, 190, 191 टोका, 199 नेठाटारी, 200 सिलपटीबरवाल, 201 सिंगपुरा, 202, 203 तरेना, 86, 99, 100 बैलास, 103 मानकी, 104, 105 भगोरा, 181, 182 तलावली, 183 खरेटिया.	22	
12	प्रकाश पंडित	सहायक यंत्री, जिला पंचायत, राजगढ़.	9826931934	101 चाचाखेड़ी, 102 लुहारी, 158, 159 हांसरोद, 163, 164 सालियाखेड़ा, 174 गोरधनपुरा, 175 बोरदा, 176, 177, 178 गिन्दोरहाट, 257, 258 पीपल्याखेड़ी, 165, 166 कोलूखेड़ा.	15	
13	श्री रमेश कुमार कुशवाह	उपयंत्री, WRD, राजगढ़.	9425097767	197, 198 बिसोनया, 207, 208 चापानेरा, 204 अमरागढ़, 205 खडिया, 206 अमरागढ़, 211, 112 नेवली, 213 नेवज, 255, 256 बेडावे.	12	
14	कल्लन चाकरे	सहायक यंत्री, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., राजगढ़.	9165501748 9406913632	189, मोठबढली, 170 नारवे, 171, 172 गोलाखेड़ा, 173 तालाझिरी, 214, 215 बासखों, 216, 217, 218 कानेड, 219, 220 रायपुरिया, 221, 222, 23 खनोटा, 259, 260 पारसाना.	17	
15	के. के. कुशवाह	सहायक यंत्री, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., राजगढ़.	9406902809	167 नरी, 168 हरिपुरा, 227, 228, 229, 230 मऊ, 224, 225, 226 पहाडगढ़, 235, 236, 237 निवारा, 231, 232, 233, 234 टोडी.	18	
16	राधेश्याम शर्मा	कृषि विकास अधिकारी, ब्यावरा.	9907808154	147, 148 बगवाज, 149, 150 बेरियाखेड़ी, 151, 152, 153 गांगहोनी, 154, 155 उमरेड, 238, 239, 240 कडियाहाट, 241, 242, 243 सेमलापार.	15	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	जी. एल. अग्रवाल	कार्यपालन अधिकारी, जिला अन्य व्यवसाई.	8224000461	133 आमडोर, 134 टुआखेड़ी, 135, 136 भंवास, 137, 138, 139 लखनवास, 140 तरेना, 69, 141 तरेनी, 142, 143 सीलखेड़ा, 144 पाडलीगुसाई, 145, 146 कानरखेड़ी, 156, 157 खेजडामहाराजा, 253 सढली, 254 नाललियाखेड़ी, 261, 262 पातलापानी.		20
18	एस. सी. जैन	सहायक प्रबंधक PMGSY, राजगढ़.	9926251304	रिजर्व		
19	केदार प्रसाद शर्मा	परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास, ब्यावरा.	9893679807	रिजर्व		
20	निशिकांत गौरे	उपयंत्री, WRD जल संसाधन, राजगढ़.	9425037814	रिजर्व		

अद्यतन संशोधित आदेश

राजगढ़, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. 2318-स्थानीय निर्वाचन-Sector Off.-2014.—त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-42-05-2014-तीन-1707, भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2014 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन जोनल (सेक्टर ऑफिसर) निम्नानुसार कालम नम्बर (5) में आवंटित पंचायतों हेतु सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया जाता है:—

जनपद पंचायत, सारंगपुर

स. क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम	पद नाम	मो.बा. चं.	सेक्टर के अन्तर्गत आने वाले पंचायत का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1	तालिब मोहम्मद अंसारी	सहायक संचालक हाथकरघा, सारंगपुर.	9479446823	1-कालापीपल, 2-बुढ़नपुर, 3-खजुरियाहरी, 4-घोंसला, 5-देवलीमानजागीर, 6-देवलीमान खालसा, 7-चांदनीजागीर, 8-पीपल्यानोची, 9-मूण्डलालोदा, 10-मूण्डलालोदा, 11-झीरी, 12-निपानियाबीका, 13-भूमका, 14-भूमका, 15-सूरस्याहेड़ी.		15	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	अशोक दीक्षित	सहायक यंत्री, EEWRD, राजगढ़.	9991850614	16-साबरसा, 17-साबरसा, 18-सिमरोल, 19-सिमरोल, 20-नेहरीछोटी, 21-कड़लावद, 22-कड़लावद, 23-श्यामपीघाटा, 24-तिसाई, 25-खेरखेड़ी, 26-तितरी, 27-खजुरियाघाटा, 28-खजुरियाघाटा, 29-बारोल, 30-खेरचाखेड़ी, 31-निपानियातुला, 32-निपानियातुला.	17	
3	अवदेश प्रसाद सिंह	प्राचार्य, PRIN, Govt. HSS. उदनखेड़ी.	9827243072	33-देदला, 34-दयाखेड़ी, 35-सेमलीलोड़ा, 36-सेमलीलोड़ा, 50-भ्याना, 51-भ्याना, 52-भ्याना, 53-भ्याना, 54-भ्याना, 55-हराना, 56-हराना, 57-हराना.	12	
4	श्री रमेश चन्द्र शर्मा	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक जन. पंचा., ब्यावरा.	9826314832	37-सण्डावता, 38-सण्डावता, 39-सण्डावता, 40-सण्डावता, 41-मलकाना, 42-बरखेड़ाखुर्रम, 43-मूडलामऊ, 44-खंजपुर, 45-काल्याखेड़ी, 46-काल्याखेड़ी, 47-डोबड़ाजोगी, 48-जयनगरजोधाना (खैरासी), 49-भीलखेड़ा.	13	
5	मेहबूब खां अगवान	ब्याख्याता, PRIN, Govt. HSS. उदनखेड़ी.	9993998114	58-दराना, 59-दराना, 60-लीमाचौहान, 61-लीमाचौहान, 62-लीमाचौहान, 63-लीमाचौहान, 64-पठारी, 65-भाटखेड़ी, 66-भाटखेड़ी, 67-काचरियाभाई, 68-काचरियाभाई, 69-बापच्या, 70-बिलगढ़ी, 71-कूपा, 72-कूपा, 73-बिरजीपुरा.	16	
6	रेखा दुबे	परियोजना अधिकारी POICDS, पंचौर.	9425487474	74-दुग्या, 75-दुग्या, 76-सुल्लानपुरा, 77-व्यारामण्डू, 78-ब्यावरामण्डू, 79-ब्यावरामण्डू, 80-विदेशी, 81-वालोजी, 82-वालोजी, 83-विगनोदीपुरा, 84-जीवाजीपुरा/खासपुरा, 85-आमगढ़, 86-जमनागंज/बिलोदापाल.	13	
7	मंगल सिंह कटारा	परियोजना यंत्री, DPE PIU PWD, राजगढ़.	8085840803	87-ढाकनी, 88-ढाकनी, 89-चापनी, 90-पाडल्यामाता, 91-पाडल्यामाता, 92-पाडल्यामाता, 93-पाडल्यामाता, 94-पाडल्यामाता, 95-पाडल्यामाता, 96-पाडल्यामाता, 97-भैंसवामाता, 98-भैंसवामाता, 99-भैंसवामाता, 100-कलाली, 101-अरन्या, 102-अरन्या, 103-लोटिया.	17	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	नरसिंह ठाकुर	व्याख्याता, PRIN, Govt., पोलेटोक्मिक, पचोर	9406669191	104-टूटियाहेड़ी, 105-टूटियाहेड़ी, सुमरियाहेड़ी, 106-पान्दा, 107-पान्दा/पान्दी, 108-बावली, 109-पाटक्या, 110-पाटक्या, 111-चाटक्या, 112-चाटक्या, 113-डोबड़। जमींदार, 114-मेहरीमोटी, 115-चिडलावनिया, 116-चिडलावनिया।	13	
9	मानसिंह वर्मा	सहायक प्रबंधक, हस्त शिल्प विकास निगम, सारंगपुर।	9827821400	117-रयपुरिया, 118-भीलखेड़ी, 119-भीलखेड़ी, 120-बाबल्दा, 121-बाबल्दा, 122-बाबल्दी, 123-छायन, 124-गायन, 125-पट्टी/मकसूदी, 126-आमलारोड, 127-आमलारोड, 128-आमलारोड।	12	
10	नरेन्द्र कुमार गर्ग	सहायक यंत्री, जिला पंचायत, राजगढ़।	9425131626	129-धामन्दा, 130-धामन्दा, 131-धामन्दा, 132-घट्टिया, 133-रोजड़कला, 134-ईचीवाड़ा, 135-ईचीवाड़ा/शंकरनगर, 136-पटाडियाडाबी, 137-शेरपुरा, 138-शेरपुरा, 139-डिंगलपुर, 140-पीपल्यापाल, 141-पीपल्यापाल, 142-अमलावता, 143-अमलावता।	15	
11	आर. एम. कुशवाह	PWD SDO, राजगढ़।	9425492439	144-गुलावता, 145-गुलावता, 146-गुलावता, 147-बाबडल्या, 148-बाबडल्या, 149-डिगवाड, 150-डैडी, 151-नितडली, 152-भूराखेड़ी, 153-इकलेरा, 154-तरलाखेड़ी, 155-चौडल्या, 156-निहाल, 157-एहसानपुरा, 158-सईदाबाग, 159-हाजीपुर/ किशनपुरा।	16	
12	शुभम चौधरी	सहायक यंत्री, म.प्र.मं.क्षे.वि.कं.लि., राजगढ़।	8982463200	160-काळीखेड़ी, 161-काळीखेड़ी, 162-रेवांगंज, 163-कालूखेड़ा, 164-कालूखेड़ा, 165-बख्यारपुरा, 166-कांकरिया, 167-काचरियापुरोहित, 168-मल्हारगंज/बिलोदापूर्बिया, 169-नारायणपुर, 170-बरूखेड़ी, 171-धनोरा, 172-धनोरा, 173-धनोरा, 174-तुकोगंज, 175-तुकोगंज/सदाशिगंज।	16	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Narendra Kumar Murrure.	सहायक परियोजना यंत्री, DPE PIU PWD, राजगढ़.	9926865030	176-चतरखेड़ी, 177-चतरखेड़ी, 178-मऊ, 179-मऊ, 180-मऊ, 181-नैनवाड़ा, 182-नैनवाड़ा, 183-कमलसरा, 184-कमलसरा, 185-किशनखेड़ी, 186-छापरा, 187-छापरा/श्यामपुरा/जोगीपुरा, 188-सुल्तानिया, 189-सुल्तानिया, 190-सुल्तानिया, 191-सुल्तानिया.	16	
14	Rajaram Sharma	सहायक परियोजना यंत्री, DPE PIU PWD, राजगढ़.	8821050161	192-भण्डावद, 193-भण्डावद, 194-सेमलीधाकड़, 195-सेमलीधाकड़, 196-सरेडी, 197-सरेडी, 198-मिटठनपुर, 199-गुलखेड़ी, 200-निपान्यारूहेला, 201-मारन्या, 202-पीपल्यादेव, 203-उदनखेड़ी, 204-उदनखेड़ी, 205-उदनखेड़ी, 206-उदनखेड़ी, 207-ग्वाडा, 208-ग्वाडा.	17	
15	रविन्द्र कुमार जैन	उपयंत्री, PWD	9425462960	209-पड़ना, 210-पड़ना, 211-पड़ना, 212-पड़ना, 213-पड़ना, 214-पड़ना, 215-पड़ना, 216-पड़ना, 217-पड़ना, 218-मगराना, 219-मगराना, 220-मगराना, 221-रामपुरिया, 222-कन्याखेड़ी, 223-सादनखेड़ी.	15	
16	Kapil Mohare	सहायक परियोजना यंत्री, DPE PIU PWD, राजगढ़.	8889374056	224-करोदी, 225-करोदी, 226-आसरोटापंवार, 227-आसरोटापंवार, 228-आसरोटापंवार, 229-आसरोटारावत, 230-मंग्याखेड़ी, 231-मंग्याखेड़ी, 232-सराली, 233-सराली, 234-रोस्या, 235-कल्याणपुर, 236-पटाड़ियाधाकड़, 237-पटाड़ियाधाकड़, 238-पटाड़ियाधाकड़.	15	
17	Mahendra Singh Narvariya.	सहायक परियोजना यंत्री, DPE PIU PWD, राजगढ़.	9179575686	239-हालूहेड़ीकला, 240-हालूहेड़ीकला, 241-हालूहेड़ीखुर्द, 242-लखेसरा, 243-लक्ष्मणपुरा, 244-चाकरोद, 245-लालपुरा, 246-पाडली, 247--पाडल्याआंजना, 248-पाल्याआंजना, 249-कुडलासा, 250-कुडलासा, 251-कोडियाखेड़ी, 252-अलूनी.	14	
18	Risikesh Agrya	सहायक परियोजना यंत्री, DPE PIU PWD, राजगढ़.	9827714283	253-बुड़नपुर, 254-बुड़नपुर, 255-निशाना, 256-ईटावा, 257-लाखाखेड़ी, 258-बनी, 259-बनी, 260-निन्द्राखेड़ी, 261-लाटाहेड़ी, 262-लाटाहेड़ी, 263-रेतानी, 264-टिकोद, 265-टिकोद, 266-टिकोद, 267-जबरदी, 268-नीनोर.	16	
19	गौरव कुमार साहू	उपयंत्री, PHE, राजगढ़.	8085437557			रिजर्व
20	कमलेश पाटीदार	उपयंत्री, PHE, राजगढ़.	9479815982			

राजगढ़, दिनांक 31 दिसम्बर 2014

क्र. 2318-स्थानीय निर्वाचन-Sector Off.-2014.-त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-42-05-2014-तीन-1707, भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2014 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन जोनल (सेक्टर आफिसर) निम्नानुसार कालम नम्बर 05 में आवंटित पंचायतों हेतु सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया जाता है:—

जनपद पंचायत, खिलचीपुर

स. क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम	पद नाम	मोबा. नं.	सेक्टर के अन्तर्गत आने वाले पंचायत का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	श्री कमलसिंह कनेश	उपयंत्री, आईईएस, राजगढ़.	9575521155	करकरी बावड़ीखेडा हिम्मतपुरा सेमलीकलां भोजपुर	1, 2 करकरी 3 बावड़ीखेडा, 4 कडेला 5, 6 हिम्मतपुरा 7, 8, 9 सेमलीकलां 10, 11, 12, 13 भोजपुर.	13	
2	डॉ. बी. डी. मुकाती	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, खिलचीपुर.	9425877992	चीबड़कलां धामन्या ढाबलीकलां रूपाहेडा दोलाज लिम्बोदा	14, 15 चीबड़कलां 16, 17 धामन्या 18, 19, 20 ढाबलीकलां 21 रूपाहेडा 29, 30 दोलाज 206, 207 लिम्बोदा	12	
3	श्री राजेन्द्र कुमार धवन	उपयंत्री, आईईएस, राजगढ़	9425916275	सतनखेड़ी समेली खोखेडा मोकमपुरा	31 सतनखेड़ी, 32 मदनपुरा 33 समेली, 34 सेदरी 35, 36 खोखेडा 37, 38 मोकमपुरा	8	
4	रमेश चंद्र उंदेरिया	व्याख्याता बीईओ, राजगढ़.	9893299886	रिछडिया ढण्ड भुमारिया भवानीपुरापुस्तढण्ड दुर्गपुरा बादरी	41, 42 रिछडिया, 43 डोरियाखेड़ी 44, 45 ढण्ड, 46 बोरदाश्रीजी 47, 48 भुमारिया 68, 69 भवानीपुरापुस्तढण्ड 194, 195 दुर्गपुरा 202, 203 बादरी	14	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	श्री अखिलेश कुमार जैन	उपयंत्री, आईईएस, राजगढ़	9425080092	खेरखेडी रामपुरिया पपडेल गोपालपुरा बरखेडा कुशलपुरा	49, खेरखेडी, 50 गोरधनपुरा 51 रामपुरिया, 52 हरिपुरा 53, 54 पपडेल, 55 बामन्याखेडी 56, 57 गोपालपुरा 58, बरखेडा, परसपुरा 67 पुराखाजला	12	
6	कैलाश सुलिया	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजगढ़.	9406852973	कुशलपुरा बारोल सुआहेडी बोरकापानसी	66 कुशलपुरा 70, बारोल, 71 देवाखेडी 72 सिंगनपुर 73, सुआहेडी, 74 खण्डारबेह 78 तलावडा.	7	
7	लोकेश्वर झरवडे	सहायक यंत्री, RES राजगढ़.	9425444071	सेदरा खाजली खाजला देहरा	39, 40 सेदरा 60, 61 खाजली 62, 63 खाजला 64 देहरा, 65 पुराखेरखेडी	8	
8	लक्ष्मण प्रसाद धाकड़	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, राजगढ़.	8962781920	सडियाकुआ डालुपुरा छीपोपुरा हरिपुरानजदीक रूपपुरा	75, 76 सडियाकुआ 79, 80 डालुपुरा 190 छीपीपुरा, 191 गादियालुहार 196, 197 हरिपुरानजदीक 204 रूपपुरा, 206 राजपुरा	10	
9	श्री एन. एन. गढ़वाल	एपीओ जिला पंचायत, राजगढ़.	9977643490	फतेहपुर जामोन्दा बावडीखेडाजागीर अमानपुरा देवाखेडी रूपरेल मेहराजपुरा	99 फतेहपुर, 100 कुण्डीबेह 101, 102 जामोन्दा 103, बावडीखेडाजागीर 104 शिवनाथपुरा. 105, 106 अमानपुरा 118 मोयाखेडी 119 रूपरेल, 120 देवरी 123 मेहराजपुरा, 124 बरखेडा	13	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	एस. सी. साहू	सहायक प्रबंधक, PMGSY राजगढ़.	9893996299	जैतपुराकलां गुजरखेड़ी पीपल्याकलां बिसन्या बाजरोन रनारा	107, 108 जैतपुराकलां 109 गुजरखेड़ी, 110 गुराडिया 111, 112, 113, 114 पीपल्याकलां. 121 बिसन्या 145 बाजरोन, 146 डगल्या 147, 148, 149 रनारा.	14	
11	श्री डी. के. जैन	PMGSY राजगढ़	9425439801	रूपाहेड़ा गादियामेर दिलावरी गादियाकलां खुरचन्याकलां	22 मेलुखेड़ा 23, 24 गादियामेर 25 दिलावरी, 26 खेडी 27 गादियाकलां, 28 कोडक्या 192 खुरचन्याकलां, 193 कांगनीखेड़ा.	9	
12	विमल गौर	सहायक प्रबंधक PMGSY राजगढ़	9407554487	बोरकापानी बधेला मांडाखेडा चांदपुरा	77 बोरकापानी 81 बधेला, 82 छावनी 83, 84 मांडाखेड़ा 85 चांदपुरा, 86 प्रेमपुरा	7	
13	ए. आर. राठौर	जिला विपणन अधि. राजगढ़.	9926291789	बडबेली धामन्याजोगी सेमलीकाकड हिनोत्या लक्ष्मणपुरा अभयपुर शेरपुरा	87 बडबेली, 88 करकरा 89 धामन्याजोगी, 90 भरतपुरा. 91 सेमलीकाकड, 92 गादियाचरण. 95, 96 हिनोत्या 98 मुंडला 198 अभयपुर 200 शेरपुरा 201 रूगनाथपुरा	12	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	सुबेदार सिंह यादव	सबडिक्लीजन एग्रीकल्चर ऑफिस वस्तु विशेषज्ञ खिलचौपुर.	9300970321	पानखेडी कछोटिया अमावता ब्यावराकलां हालाहेडी अभयपुर	93, 94 पानखेडी 125, 126 कछोटिया 27, 28 अमावता 33, 34, 45 ब्यावराकलां 136 हालाहेडी, 137 बरेगुलिया 190 बरूखेडी	12	
15	जे. एस. दण्डोटिया	सहायक यंत्री, जिला पंचायत, राजगढ़.	9425097877	चितावल्या देवाखेडी बिसन्या कुआखेडा नाटाराम धुंआखेडी जटामढी	115, 116 चितावल्या 117 देवाखेडी 122 अंकखेडी 138, 139 कुआखेडा 140, 141, 142 नाटाराम 143 धुंआखेडी 156 सेंदरा	11	
16	अनिल गुप्ता	कनिष्ठ यंत्री, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. लि. राजगढ़.	9406902801	गुनाखेडी भादाहेडी गाडाहेट बरखेडाभोजा	161, 162 गुनाखेडी 163, 164 भादाहेडी 170, 171 गाडाहेट 174, 175 बरखेडाभोजा	8	
17	एम. एस. कोरी	उप महाप्रबंधक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं. राजगढ़.	9406902348	धुंआखेडी जटामढी भाटखेडा सिकन्दरी गुगाहेडा	114 शेखनपुर 155 जटामढी 157, 158, 159, 160 भाटखेडा 172 सिकन्दरी, 173 मीनगावं 176, 177 गुगाहेडा	10	
18	प्रदीप कुमार खरे	वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजगढ़.	8989981192	खजूरीगोकुल खाताखेडी दरियापुर कांकरिया	150, 151, 152 खजूरीगोकुल 153, 154 खाताखेडी 186 दरियापुर, 187 काथरी. 188, 189 कांकरिया.	9	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	मुकेश जैन	उपायुक्त, DRCS (ADMN) Rajg.	9893256741	लक्ष्मणपुरा कुलीखेडा दुंदाहेडी जैतपुराखुर्द लसुडली	97, लक्ष्मणपुरा 129, 130 कुलीखेडा 131 दुंदाहेजी, 132 भरवाखेडी 165, 166, जैतपुराखुर्द 167 करणपुरा 168 लसुडली, 169 नगपुरिया	10	
20	डी. के. सूर्यवंशी	वि. व. विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केन्द्र, राजगढ़.	9098453633	चमारी बामनगांव सोनखेडाकलां देवलीसांगा	178 चमारी, 179 हरयाला 180, 181 बामनगांव 182, 183 सोनखेडाकलां 184 देवलीसांगा, 185 छतरपुरा.	8	
21	आर. डी. कुशवाह	उपयंत्री, सीसीबी बैंक राजगढ़.	9406529688				
22	सुरेश सोनी	उपयंत्री मोहनपुरा परियोजना राजगढ़.	9302370631	रिजर्व			

राजगढ़, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. 2318-स्थानीय निर्वाचन-Sector Off.-2014.—त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2014-15, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-42-05-2014-तीन-1707, भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2014 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन जोनल (सेक्टर ऑफिसर) निम्नानुसार कालम नम्बर 05 में आवंटित पंचायतों हेतु सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया जाता है:—

जनपद पंचायत, नरसिंहगढ़.

स. क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम	पद नाम	मोबा. नं.	सेक्टर के अन्तर्गत आने वाले पंचायत का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	अशोक कुमार पाटीदार	ब्याख्याता PRIN Govt. HSS तलेन, नरसिंहगढ़.	9893271381	अमलार बावडीखेडी टीकरिया बारवांखुरम चौमा गिन्दोली	195, 196, 197, 198 199, 200, 201, 202 192, 193, 194, 175, 176, 177 170, 171 172, 173, 174	19	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	पदमेरेखा श्रीवास्तव	सहायक यंत्री, EEPWD राजगढ़.	9589705704	रलायती बोकडी भीलाखेडा परसूखेडी गेहूखेडी बनोरी बुचाखेडी	154, 155 151, 152, 153 167, 168, 169 373, 374 178, 179 180, 181, 182 224, 225	17	
3	कृष्ण वल्लभ, सक्सेना	प्राचार्य, BEO नरसिंहगढ़	8889696549	इकलोरा जंगीबड़ नाहली बरनावद बडबेली बेजड	208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 215, 216, 217 218, 219, 220 221 205, 206, 207 183, 184 203, 204	21	
4	सत्येन्द्र कुमार पाण्डेय	प्राचार्य PRIN Govt. HSS अमलार.	8878524894	कांसरोद पीपल्यातल्लकुल पाडल्यादान बमारासूखा महुआ रोसला शहदखेडी उमरी	185, 186 187, 188 189, 190, 191 352, 353, 354, 355 162, 163 164, 165, 166 222, 223 359, 360	20	
5	सोने राम शाक्य	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी Sub. Div. Agee. Off. ब्यावरा.	9826959366	पान्या उमरिया पीपल्यारसोडा लसूडल्याजागीर कडियासांसी करोंदी	141, 142 143, 144 145, 146 147, 148, 149, 150 138, 139, 140 159, 168, 161 156, 157, 158	19	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	शत्रुघन सिंह	पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ DDVS राजगढ़.	9424444078	चाठा आंकखेड़ी कोडियागोड कूकल्याखेड़ी मंडावर हरलाय	129, 130, 131 132, 133 134, 135 136, 137 15, 16, 17, 18, 19, 20, 13, 14	17	
11	बद्री प्रसाद वर्मा	व्याख्याता PRIN Govt. HS इकलेरा	9754760584	कुंवरकोठरी हिनोत्या नन्दागांव लसूडल्यापाता मवासा बरखेड़ाडोर आंवली	122, 123, 124, 125 235, 236, 237 115, 116 117, 118, 119 113, 114 238, 239, 240 241, 242	19	
12	एस. डी. वर्मा	सहायक यंत्री जिला पंचायत, राजगढ़	7869213222	भैंसाना घियाखेड़ी ताजपुरा नूत्याहेड़ी कुराडियाखेड़ी उदपुरिया कांकरवाल रनावा	3, 4, 5 1, 2 6, 7 8, 9, 10 11, 12 21, 22, 23 26, 27, 28 24, 25	20	
13	योगेश दामोर	सहायक यंत्री म.प्र.म.शे.वि.वि.कं.लि., राजगढ़	8827278088	पीपलखेड़ा बिरगढ़ी धनखेड़ी मानपुरागुजराती मुगलखेड़ी साहूखेड़ी निपान्याचेतन	286, 287, 288 283, 284, 285, 271, 272, 273 289, 290 291, 292, 293, 294 295, 296, 297, 364, 365, 366	21	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	हरीश कुमार मालवीय	उप संचालक कृषि Dy Director hort. राजगढ़	7415025606	पोलूखेड़ी शिवपुरा गीलाखेड़ी खेरखेड़ी बड़नगर कांकरियामीना झाडक्या	367, 368, 369 370, 371, 372 347, 348, 349, 342, 343, 344 345, 346 340, 341 333, 334, 335 330, 331, 332	22	
15	जोध्या सिंह पन्द्राम	उप संचालक कृषि Dy Director hort. राजगढ़	9425484712	जामोन्यागोपचौहान मोयलीकला पालखेड़ी माना तरेनीधाकड़ लसूडल्याहाजी लशकरपुरा	308, 309, 310 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 336, 337, 338 339 328, 329 323, 324 325, 326, 327	21	
16	अनवर खान गोरी	सहायक प्राध्यापक PRIN Govt. Degree College नरसिंहगढ़	9907939652	सांकाजागीर कोटरा बिहार तिन्दौनिया बड़ीदियातालाब	320, 321, 322, 82, 83, 84 89, 90, 91 85, 86, 87, 88 92, 93, 94, 95	17	
17	गोपाल कृष्ण वर्मा	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें DDVS राजगढ़	9425083941	खानपुरा सोनकच्छ चांदबड़ पलासी बैरसिया पीपल्याबाग भवानीपुरा	36, 37, 38 41, 42, 43 34, 35 39, 40 29, 30, 31, 32 33 49, 50 120, 121	19	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	विनोद कुमार नामदेव	उपयंत्री BEWRD नरसिंहगढ़	9425620874	पाडल्याबना आंदलहेड़ा गादिया चारपुरा मानपुरादेव चैनपुराकला	44, 45 46, 47, 48 60, 61 55, 56, 57 58, 59 53, 54	14	
19	पी. आर. पाण्डेय	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी ब्यावरा	9893634688	संवासी मुआलियाखेदर रामगढ़ पुराबरायठा पांजरा विजयगढ़ बरखेड़ीगढी	68, 69, 70 71, 72, 73 74, 75, 65, 66, 67 62, 63, 64 76, 77, 78, 79 80, 81	20	
20	रामसिंह रजक	सहा. मत्स्य अधि. राजगढ़	9300302237	कडियाचन्द्रावत खेड़ी सराना खजूरिया गनियारी कुदाली	51, 52 99, 100 96, 97, 98 104, 105 101, 102, 103 361, 362, 363	15	
21	योगेश शर्मा	उपयंत्री FFWRD नरसिंहगढ़	9826236363		रिजर्व		
22	शुशील कुमार मुराडाय	उपयंत्री BEWRD नरसिंहगढ़	9425043362		रिजर्व		